



बिहार गजट

असाधारण अंक

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

29 ज्येष्ठ 1937 (श0)
(सं0 पटना 687) पटना, शुक्रवार, 19 जून 2015

गृह विभाग

अधिसूचनाएं

11 जून 2015

सं0 कारा/स्था0 (अधी0) 01-12/2014-3426—कारा अधिनियम, 1894 की धारा 59 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार के राज्यपाल “बिहार कारा सेवा नियमावली, 2014” में संशोधन करने के लिये निम्नलिखित नियमावली बनाते हैं:-

1. संक्षिप्त नाम, विस्तार एवं प्रारंभ।- (1) यह नियमावली “बिहार कारा सेवा (संशोधन) नियमावली, 2015” कही जा सकेगी।

(2) इसका विस्तार संपूर्ण बिहार राज्य में होगा।

(3) यह तुरंत प्रवृत्त होगी।

2. बिहार कारा सेवा नियमावली, 2014 का नियम-3 का उप-नियम (i) निम्नलिखित द्वारा प्रस्थापित किया जायेगा:-

“(i) बिहार कारा सेवा में निम्नलिखित पद होंगे:-

(क) अधीक्षक, उपकारा/उप-निदेशक, बिहार सुधारात्मक प्रशासनिक संस्थान-मूल कोटि-बिहार कारा सेवा में प्रवेश का प्रथम बिन्दु।

(ख) अधीक्षक, मंडल कारा-प्रोन्नति का प्रथम स्तर।

(ग) अधीक्षक, केन्द्रीय कारा/सहायक कारा महानिरीक्षक/निदेशक, बिहार सुधारात्मक प्रशासनिक संस्थान-प्रोन्नति का द्वितीय स्तर।

(घ) उप महानिरीक्षक, कारा एवं सुधार सेवाएँ- प्रोन्नति का तृतीय स्तर।

उपरोक्त पदों का वेतनमान वही होगा जो राज्य सरकार द्वारा, समय-समय पर, विहित किया जायेगा।”

3. बिहार कारा सेवा नियमावली, 2014 का नियम-3 का उप-नियम (iii) एतद् द्वारा विलोपित किया जाता है।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,

(ह0) अस्पष्ट,

अपर सचिव-सह-निदेशक (प्र0)।

The 11th June 2015

No. कारा/स्था0(अधी0)-01-12/2014-3426—In exercise of the powers conferred by Section 59 of the Prisons Act, 1894, the Governor of Bihar is pleased to make the following Rules to amend the “Bihar Jail Service Rules, 2014” :-

1. **Short title, extent and commencement** .- (I) These Rules may be called the “Bihar Jail Service (Amendment) Rules, 2015”.

(2) It shall extend to the whole of the State of Bihar.

(3) It shall come into force at once.

2. Sub Rule (i) of Rule 3 of the Bihar Jail Service Rules, 2014 shall be substituted by the following.-

“(i) There shall be the following posts in the Bihar Jail Services:-

(a) Superintendent, Sub Jail/Deputy Director, Bihar Institute of Correctional Administration. – Basic category - First point of entry in the Bihar Jail Service.

(b) Superintendent, District Jail- First Stage of Promotion.

(c) Superintendent, Central Jail/Assistant Inspector General of Prisons/ Director, Bihar Institute of Correctional Administration - second Stage of Promotion.

(d) Deputy Inspector General of Prisons and correctional services.- Third Stage of Promotion.

The pay scale of the above posts shall be the same as prescribed by the State Government from time to time. ”

3. Sub Rule (iii) of Rule 3 of Bihar Jail Service Rules, 2014 is hereby deleted.

By order of the Governor of Bihar,

Sd./Illegible,

Additional Secretary-Cum-Director (admin) .

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,

बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।

बिहार गजट (असाधारण) 687-571+200-डी0टी0पी0।

Website: <http://egazette.bih.nic.in>